

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ने COVID-19 के दौरान निर्माण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नए डिजिटल टूल्स पेश किए

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (24 अप्रैल, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अपने प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट (Planning and Development) विभाग में प्रगतिशील, नई प्रक्रियाएं और टूल्स पेश किए हैं। इन टूल्स के साथ विभाग COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) के दौरान, निवासियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखते हुए, निर्माण संबंधी प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाएगा।

डेवलेपर्स अब, सबडिवीजन की योजनाएं, रीज़ोनिंग और साइट योजनाओं सहित, निर्माण कार्यों संबंधी सभी आवेदन, सिटी की [वेबसाइट \(website\)](#) पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। चूंकि यह टूल 20 मार्च को स्थापित किया गया था, इसलिए सिटी को निर्माण कार्यों संबंधी 25 नए आवेदन मिल चुके हैं। स्टाफ ने स्टेकहोल्डर्स के साथ वीडियो टेलिकॉन्फरेंसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दूर से काम करते हुए, सभी आवेदनों पर प्रक्रिया कर ली है।

20 अप्रैल से, रिहायशी बिल्डिंग परमिट्स के लिए भी आवेदन, ऑनलाइन पेश किए जा सकते हैं। बिल्डिंग डिवीजन (Building Division) स्टाफ, आभासी तौर पर (वर्चुअली) अधिकृत बिल्डिंग्स (सेकंड यूनिट्स सहित) की जांचें कर रहा है। बड़े इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल (आई.सी.आई.) (Industrial, Commercial and Institutional) (ICI) संबंधी आवेदन, केवल तय मुलाकात द्वारा ही जमा करने जारी रहेंगे।

स्टाफ ने निर्माण के कई कामों के लिए मंजूरी जारी की और COVID-19 महामारी के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखा है:

- लगभग 22,000 वर्ग फुट की कार्यालयों के लिए जगह और 800 रिहायशी यूनिटों की मंजूरी।
- सिटी के चीफ बिल्डिंग अधिकारी (Chief Building Official) ने मैपल लॉज फार्म्स (Maple Lodge Farms) को बिल्डिंग परमिट प्रदान किया है, इस प्रोजेक्ट से 250 नई नौकरियां पैदा होंगी
- शॉपर्स वर्ल्ड (Shoppers World) को दुबारा बनाना (रियोकैन), जिसने साइट को, 5,000 से अधिक रिहायशी यूनिटों के साथ, मिले-जुले उपयोग वाले, नए शहरी समुदाय में बदलने का प्रस्ताव पेश किया है।

2019 में मार्च और अप्रैल में जारी किए परमिटों के मुकाबले, सिटी ने इस वर्ष 34 प्रतिशत अधिक परमिट जारी किए हैं। जारी किए गए महत्वपूर्ण परमिटों में शामिल हैं:

- मैपल लॉज फार्म्स (Maple Lodge Farms) – निर्माण मूल्य \$2.5 मिलियन
- शेल, 6475 मेफील्ड रोड (Shell, 6475 Mayfield Road) – निर्माण मूल्य \$2.95 मिलियन
- 17 नाइट्सब्रिज रोड (17 Knightsbridge Road) – निर्माण मूल्य \$1.2 मिलियन
- 1 नाइट्सब्रिज रोड (1 Knightsbridge Road) – निर्माण मूल्य \$500,000

COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, समुदाय की सहायता के लिए सिटी के प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं या @CityBrampton को Twitter, Facebook और Instagram पर फॉलो करें।

हवाले

“अच्छी तरह संचालित शहर के तौर पर, हम अपने समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखते हुए, ब्रैम्पटन में कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन प्रगतिशील, नई प्रक्रियाओं और टूल्स के साथ हम – COVID-19 महामारी के दौरान, हमारी सिटी में निर्माण के कामों को आगे बढ़ा पाएंगे, नई नौकरियां पैदा कर पाएंगे और शारीरिक दूरी कायम रख पाएंगे।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हालांकि सिटी की फैसिलिटीज बंद हैं, काउंसिल और स्टाफ, कारोबार को आगे बढ़ाने के वैकल्पिक तरीकों में सेवाएं पेश करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्रयोग की जाने वाली नई तकनीकें, ब्रैम्पटन के कारोबारियों को प्रभावी सेवा प्रदान करेंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहयोग करेंगी और स्टाफ व निवासियों को सुरक्षित रखेंगी।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट कमेटी

“इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमारा ध्यान हमारे शहर की वृद्धि पर भी है। सेवाएं प्रदान करने के नए तरीके ढूंढकर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, डेवलेपर्स के लिए लगातार प्राथमिकता वाली जगह बनी रहेगी।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट कमेटी

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का स्टाफ, इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान नए और सुरक्षित तरीकों से प्रोग्राम और सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे समर्पण में एकजुट है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में पेश की गई प्रक्रियाओं और टूल्स के साथ, हम इस एमरजेंसी के दौरान, स्टाफ और जनता के स्वास्थ्य और तंदरुस्ती को कायम रखते हुए, निर्माण संबंधी समुदाय को लगातार सेवा प्रदान कर पाएंगे।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca